



## July planning pack FOR CHILDREN




grab  
YOUR  
PACK  
today



CLASS - 5

MARIGOLD


CH - 5  
FLYING  
TOGETHER





# STUDENTS WILL COME ACROSS:

- New vocabulary
- Word meanings
- Question answers
- Text book exercises
- Creative writing in reference to context
- Fun activities





# OBJECTIVES

**TO MAKE LEARNING SPONTANEOUS AND JOYFUL ACTIVITY.**


**TO DEVELOP READING AND UNDERSTANDING OF THE LESSON .**

**TO DEVELOP THE ABILITY TO USE LANGUAGE CORRECTLY AND CREATIVELY.**

**TO LEARN NEW WORD MEANINGS.**


**TO BE ABLE TO THINK WISELY AND DISCOURAGING LAZINESS**





# TEACHING METHODS:

- Board summary of the chapter
- Whole class discussion
- Explaining with actions



# TEACHING PROCEDURE


- Reading
- Explanation
- Re-reading (self)
- Discussion
- Problem solving
- Revision



# EVALUATION

- ❖ Class test (10 marks)
- ❖ Oral tests in class
- ❖ Periodic assessment
- ❖ Revision





# Class -5 Grammar Gear

**पुुना International School**  
Shree Swaminarayan Gurukul, Zundal

# Articles

A

AN

THE






# Articles

An article is a word that comes before a noun.



the boy



a bee



an apple





# Articles

**Indefinite**

(General Things)

**We use**

'a' or 'an'

**Definite**

(Specific Things)

**We use**

'The'



# ARTICLES

There are three articles in English Language. They are A, AN and THE

---



**In definite article (A and AN)**

Use 'a' if the word starts with a consonant.



Use 'an' if the word starts with a vowel.



**Definite article (THE)**

Use 'the' before singular countable or common noun.



## Students will learn to:

- Use grammatically correct language
- Define the articles a, an and the
- Understand articles make the noun definite or indefinite
- Communicate effectively





# Teaching methodology

- Brain storming
- Inductive teaching
- Pair work
- Class discussion



Explanation

Illustration

Recall/revise

Apply



# Evaluation


- ❖ **Class test (10 marks)**
- ❖ **Oral tests in class**
- ❖ **Periodic assessment**
- ❖ **Revision**



# पुना International School

Shree Swaminarayan Gurukul, Zundal


**WELCOME TO ACADEMIC GLIMPSE  
OF**



**GRADE: V  
EVS**

**Month of July-  
2019**

# Syllabus of July-2019



*Ch-5 Seeds and Seeds*

*Ch-6 Every Drop Counts*

**पुणे International School**

Shree Swaminarayan Gurukul, Zundal

# CH-5 SEEDS AND SEEDS



## Sprouting

Soaked in water and tied in a cloth at a warm place....

Shoot comes out after a day or two

## Germination

Air, water and warmth..

First the root comes out and then the stem..

# CH-5 SEEDS AND SEEDS



## Seeds travel through

- By flying
- By bursting
- By sticking to animal fur or clothes
- By throwing away seeds through human/animals





# TEACHING AID

## How Seeds Travel

### by the wind



milkweed



dandelion



maple

### by animals



beggar-ticks




sandbur



blackberry

### by water

lotus



cattail



coconut

### by bursting

violet



jewelweed



witch hazel

### by humans



bean



wheat



cherry



# CH-6 Every drop counts







# How we get water

In old Time
Rain Water
Pond made by people
Stepwells (bavdis) made by people
Drinking water while travel

In New Time
Jal board tanker
Borewells
Overhead tanks
Canals
Pumps on Jal board pipeline








# CLASS – V

## MATH MAGIC

### CHAPTERS IN THE MONTH OF JULY 2019



**Ch – 4 PARTS AND WHOLE**  
**AND**  
**Ch -5 DOES IT LOOK THE**  
**SAME?**



# Fraction Filing!

# CHAPTER – 4 PART AND WHOLE

## ❖ Summary

➤ Introduction.

➤ Write the fraction of the given figures.

➤ Shade the figure according to the given fraction.

➤ Comparison of fraction.

➤ Addition, subtraction and multiplication of fraction.

➤ Equivalent fraction




# INTRODUCTION

- A fraction is a way of representing division of 'whole into parts'.

- For example:-

$$\frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{23} \quad \frac{1}{12} \quad \frac{1}{8}$$
$$\frac{1}{5} \quad \frac{1}{6}$$


- Fraction divided into two parts









$$\frac{3}{4}$$








← Numerator

← Denominator






$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$$




# SYMMETRY



# CHAPTER – 5 Does it look the same?

- **Summary**

- ❖ Introduction.
- ❖ Types of symmetry.
- ❖ Figure with more than one line symmetry.
- ❖ Look at the figures and draw its shape after half turn and one fourth turn.
- ❖ Multiple choice question.



# Introduction

## ❖ Line of symmetry:-


A line dividing a figure into two identical parts is called the line of symmetry.


## ❖ Types of symmetry:-

[A] Symmetry of shapes

[B] Symmetry of alphabets

[C] Symmetry of numbers





















C) Draw what the following shapes would look like on  $\frac{1}{4}$  turn and half a turn.



	On $\frac{1}{4}$ turn	On half turn
a) 		
b) 		
c) 		
d) 		

# पुना International School

Shree Swaminarayan Gurukul, Zundal



## शिक्षण सामग्री

- डाकिये का चित्र
- फ्लेश कार्ड
- चार्ट



## डाकिया



### विवरण

'डाकिया' खाकी पैंट और खाकी कमीज़ पहने, कंधे पर खाकी झोला लटकाए एक व्यक्ति होता है।

### अन्य नाम

डाक बाबू, डाकिया भैया, पोस्टमैन, चिट्ठीरसा

### महत्त्व

ज़मीनी स्तर पर डाकिया ही डाक विभाग का वास्तविक प्रतिनिधि होता है। भारतीय समाज में डाकिया को सबसे सम्मान का दर्जा मिला है। सरकार और जनता के बीच संवाद की वह सबसे मजबूत कड़ी है।

### वर्तमान में

जैसे-जैसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक रिश्तों में आत्मीयता व भावनात्मकता कम होती गयी, वैसे-वैसे ही डाकिया का दृष्टिकोण भी भावनात्मक की बजाय



<b>अन्य नाम</b>	डाक बाबू, डाकिया भैया, पोस्टमैन, चिट्ठीरसा
<b>महत्त्व</b>	ज़मीनी स्तर पर डाकिया ही डाक विभाग का वास्तविक प्रतिनिधि होता है। भारतीय समाज में डाकिया को सबसे सम्मान का दर्जा मिला है। सरकार और जनता के बीच संवाद की वह सबसे मजबूत कड़ी है।
<b>वर्तमान में</b>	जैसे-जैसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक रिश्तों में आत्मीयता व भावनात्मकता कम होती गयी, वैसे-वैसे ही डाकिया का दृष्टिकोण भी भावनात्मक की बजाय व्यवसायिक होता गया।
<b>संबंधित लेख</b>	भारतीय डाक, डाक संचार, डाक टिकट, डाकघर, तार, पोस्टकार्ड
<b>अन्य जानकारी</b>	डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यन्त परिश्रम और लगन के साथ सम्पन्न करता है। गर्मी, सर्दी और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है।







# सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी

'डाकिया' भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सभी तबके के लोग हैं। कभी-कभी जो काम बड़े अधिकारी भी नहीं करा पाते वह डाकिया चंद मिनटों में करा देता है। कारण डाक विभाग का वह सबसे मुखर चेहरा है। जहाँ कई अन्य देशों ने होम-टू-होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाये हैं, या इसे सुविधा-शुल्क से जोड़ दिया है, वहीं भारतीय डाकिया आज भी देश के हर होने में स्थित गाँव में निःशुल्क अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। जैसे-जैसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक रिश्तों में आत्मीयता व भावनात्मकता कम होती गयी, वैसे-वैसे ही डाकिया का दृष्टिकोण भी भावनात्मक की बजाय व्यवसायिक होता गया। [2]







# व्याकरण

**पुर्णा International School**  
Shree Swaminarayan Gurukul, Zundal



काल किसे कहते है काल के उदाहरण

क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे 'काल' कहते है।

दूसरो **शब्दों** में क्रिया के उस रूपान्तर को काल कहते है, जिससे उसके कार्य-व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान हो जैसे -

1. सुनील गीता पढ़ता है
2. प्रदीप पढ़ रहा है
3. रमेश कल दिल्ली जाएगा
4. कल शहर में एक जनसभा हो रही थी



भूतकाल



काल के भेद



वर्तमानकाल

भविष्यकाल




# गतिविधि

- डाकिये का चित्र बनाओ अथवा चिपकाओ ।



# पु.ना International School

Shree Swaminarayan Gurukul, Zundal




# CLASS - 5 COMPUTER

JULY 2019-20 LESSON  
PLAN  
CHAPTER 5 ,  
COMPUTER LAB PRACTICE

**TEACHING**

**AIDS**







# FLIP CARDS



# COMPUTER PARTS



# CH-3 EXPLORING WINDOWS 7



**पुुना International School**  
Shree Swaminarayan Gurukul, Zundal



## COMPUTER LAB PRACTICE

- ❖ Windows Explorer
- ❖ Navigating in windows Explorer
- ❖ Creating files and folders
- ❖ Renaming files and folders
- ❖ Restoring files and folders
- ❖ Copying and moving files and folders
- ❖ Creating Shortcuts

THANK YOU!

The image features the words "THANK YOU!" in a highly stylized, bubbly font. Each letter is a different color and has a thick black outline. The letters are arranged in two rows: "THANK" on top and "YOU!" on the bottom. The 'T' is yellow, 'H' is orange, 'A' is green, 'N' is purple, and 'K' is orange. The 'Y' is green, 'O' is pink, and 'U' is blue. The exclamation point is blue. There are several decorative flowers: a blue five-petaled flower above the 'K', a blue six-petaled flower to the right of the 'K', a large pink six-petaled flower with a yellow center in front of the 'Y', a blue six-petaled flower to the left of the 'Y', and a small blue swirl at the bottom right. The entire graphic is set against a white background within a purple border.